



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2008/कार्तिक 16, 1930

No. 586]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2008/KARTIKA 16, 1930

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 776(अ)—सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 (1961 का 26वां) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5(1) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अधिनियम की संगत धारा के तहत सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए सालारजंग संग्रहालय बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

i)	नवाब अहतरम अली खान	9-4-2, टोली चौकी, हैदराबाद, धारा 5(1) (ब) के तहत स्व. सालारजंग-III के परिवार से नामित के रूप में।
ii)	सुश्री तसनीम जुकारिया मेहता	अंकोरेज, पी. जे. रामचंदानी मार्ग, अपोलो बंदर, मुम्बई-400039, धारा 5(1) (छ) के तहत।
iii)	श्री सईद जाकिर हुसैन	म. सं. 9-5-48/8/क, बक्षीर बाग, हैदराबाद, धारा 5(1) (छ) के तहत।
iv)	श्री जी. एस. सीता यम राजू	म. सं. 23-5-279/3 और 4, लाल दरवाजा के भीतर, शाह अली बंदा, हैदराबाद-65, धारा 5(1) (छ) के तहत।

2. इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 5(1) (ज) के अनुसरण में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए सालारजंग संग्रहालय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है :-

i)	ऊर्जा और कोयला तथा वक्फ़ मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
ii)	मुख्य सचिव (पर्यटन और संस्कृति तथा पुरातत्व और संग्रहालय), आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सालारजुंग संग्रहालय बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी :

1.	आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के महामहिम राज्यपाल	पदेन अध्यक्ष धारा 5 (1) (क) के तहत
2.	सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	पदेन सदस्य धारा 5 (1) (ख) के तहत
3.	महापौर, हैदराबाद नगर निगम	पदेन सदस्य धारा 5 (1) (ग) के तहत
4.	उप कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	पदेन सदस्य धारा 5 (1) (घ) के तहत
5.	महालेखापाल (ए एण्ड ई), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद	पदेन सदस्य धारा 5 (1) (ङ) के तहत
6.	नवाब अहतरम अली खान	धारा 5 (1) (च) के तहत सदस्य
7.	शुश्री तसनीम जकारिया मेहता	धारा 5 (1) (छ) के तहत सदस्य
8.	श्री सईद ज़किर हुसैन	धारा 5 (1) (छ) के तहत सदस्य
9.	श्री जी. एस. सीता राम राजू	धारा 5 (1) (छ) के तहत सदस्य
10.	ऊर्जा और कोयला तथा वक्फ़ मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	धारा 5 (1) (ज) के तहत सदस्य
11.	मुख्य सचिव (पर्यटन और संस्कृति तथा पुरातत्व और संग्रहालय), आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।	धारा 5 (1) (ज) के तहत सदस्य

क्रम सं. 6 से 11 तक के सदस्यों का कार्यकाल अधिशूचना की तिथि से 5 वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

[फा सं. 8-19/2007-एम-1]

रामचन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2008

G.S.R. 776(E).—In pursuance of the Section 5 (1) of the Salar Jung Museum Act, 1961 (28 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), the following persons are hereby nominated by the Central Government as the members of the Salar Jung Museum Board, against relevant section of the Act mentioned against their names, for a period of 5 years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

(i) Nawab Antheram Ali Khan

9-4-2, Toli Chowki, Hyderabad as nominee from the family of late Salar Jung - III Under Section 5(1) (f)

(ii) Ms. Tasneem Zakaria Mehta

Anchorage, P.J. Ramchandani Marg, Apollo Bunder, Mumbai-400039, Under Section 5 (1) (g)

- | | |
|-------------------------------|---|
| (iii) Sri Syed Zakir Hussain | H. No. 9-5-48/8/A Basheerbagh, Hyderabad.
Under section 5(1) (g) |
| (iv) Sri G.S. Seeta Rama Raju | H. No. 23-5-279/3&4 inside Lal Darwaza,
Shah Ali- Banda, Hyderabad-65,
Under section 5(1) (g) |

2. Further in pursuance of the section 5 (1) (h) of the said Act, the Government of Andhra Pradesh have nominated the following persons to be the Members of Salar Jung Museum Board for a period of 5 years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette:-

- (i) Minister for Energy & Coal and Wakf, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (ii) Principal Secretary (Tourism & Culture and Archeology & Museums), Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.

3. In view of the above, composition of the Salar Jung Museum Board will be as follows:

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | H.E. The Governor of Andhra Pradesh, Hyderabad. | Ex-officio Chairman under section 5 (1) (a) |
| 2 | Secretary, Ministry of Culture, Government of India | Ex-officio member under section 5 (1) (b) |
| 3 | Mayor, Municipal Corporation of Hyderabad | Ex-officio member under section 5 (1) (c) |
| 4 | Vice Chancellor, Osmania University, Hyderabad | Ex-officio member under section 5 (1) (d) |
| 5 | Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Hyderabad | Ex-officio member under section 5 (1) (e) |
| 6 | Nawab Ahtheram Ali Khan | Member under section 5 (1) (f) |
| 7 | Ms. Tasneem Zakaria Mehta | Member under section 5 (1) (g) |
| 8 | Shri Syed Zakir Hussain | Member under section 5 (1) (g) |
| 9 | Shri G.S. Seeta Rama Raju | Member under section 5 (1) (g) |
| 10 | Minister for Energy & Coal and Wakf Government of Andhra Pradesh, Hyderabad | Member under section 5 (1) (h) |

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 11 | Principal Secretary (Tourism & Culture and
Archeology & Museums), Government of Andhra
Pradesh | Member under section
5 (1) (h) |
|----|--|-----------------------------------|

Tenure of the members from Sl. No. 6 to 11 will be for a period of 5 years from the date of their notification or till for the orders whichever is earlier.

[F. No. 8-19/2007-M-I]

R. C. MISHRA, Jt. Secy.